

m-692
21/11/05
18/11/05

R-11886
राष्ट्र सरकार मुद्रणालय
के दिनांक.....की प्रतः

राजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



प्रभार
शासक विवरण इत्यादि

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 350

K.M. 30

Deptt 100

CPB 220

सं. 569]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2004/पौष 7, 1926

No. 569]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2004/PAUSA 7, 1926

B. Basu
13/11/05
प्रा किया

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 840(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1996 की अनुसूची में, अवर सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तम्भ 12 में, "प्रोन्नति" शीर्षक के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"आयोग के ऐसे अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है।"

[फा. सं. 15011/39/2002-एच.आर.]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव (एच.आर.)

पाठ टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, तारीख 23 नवम्बर, 1996 में सा.का.नि. 524, तारीख 13 नवम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

3851 GI/2004

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2004

प्रभारी
रा. वि. इका

G.S.R. 840(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (b) of Sub-section (2), of Section 40 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (10 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Human Rights Commission (Group "A" and Group "B" Posts) Recruitment Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Human Rights Commission (Group "A" and Group "B" Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Human Rights Commission (Group "A" and Group "B" Posts) Recruitment Rules, 1996, against serial number 11 relating to the post of Under Secretary, in column 12, under the heading "Promotion", for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Section Officers in the Commission having not less than eight years' regular service in the grade."

[F.No. 15011/39/2002-H.R.]

A. K. JAIN, Jt. Secy. (H.R.)

Foot Note :—The principal rules were published vide G.S.R. 524 dated the 13th November, 1996 in the Gazette of India dated the 23rd November, 1996.